

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257081
SG-DL-E-11092024-257081असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 181
No. 231]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 181

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

(गृह रक्षक निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

फा. सं. स्था. 3(156)/गृ.पु./2017/5342/2015.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 09.03.1975 की अधिसूचना संख्या फा. 2-2(7)/74-एस-II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली संबंधित बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में आर्मरर (अस्त्रकार) के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन नियमों को गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में आर्मरर (अस्त्रकार) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

ii. ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर संलग्न अनुसूची के कॉलम सं० (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं० (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परामर्श करके, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकती है।

6. **बचाव :-** इन नियमों में निहित भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	आर्मरर (अस्रकार)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित/अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रुपये 18,000-56,900/-)
5.	चयन अथवा गैर चयन	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस (40) वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18वर्ष तथा 27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. शस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बल/पुलिस से न्यूनतम 12 सप्ताह का आर्मरर पाठ्यक्रम टीप:- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू	:	लागू नहीं

	होगी।		
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष टीप : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परीवीक्षा को पूर्ण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरक परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो डीपीसी (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) समूह 'ग' से समूह 'ख' की पदोन्नति हेतु इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण मामलों के विचारार्थ) 1. महानिदेशक, गृह रक्षक – अध्यक्ष 2. अपर/विशेष सचिव (गृह विभाग) – सदस्य 3. उप-सचिव (गृह विभाग) – सदस्य 4. उप-सचिव (वित्त विभाग) – सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राजीव कुमार त्यागी, उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT
(Directorate of Home Guards)
NOTIFICATION

Delhi, the 10th September, 2024

F. No. Estt.3(156)/HG/2017/5342/2015.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification GSR-840 dated. 13th July, 1959 and in supersession of Notification No.F.2-2(7)/74-SII dated 09.03.1975 issued by this Government, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt, Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Armourer in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

- These Rules may be called the Armourer in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi, Recruitment Rules, 2024.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, classification and level in pay matrix:- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification:- No person;

- a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, Exempt any person from the operation of these Rules.

5. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the Services Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi, may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of the Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Selection or Non Selection	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Armourer	01*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted/Non-Ministerial,	Level-1 Rs.18,000-56,900) in the Pay Matrix.	Not Applicable	Between 18 to 25 years* (The Upper age-limit is Relaxable for Government Candidates upto Forty (40) years in accordance with the instruction or orders issue by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	Essential: 1. 10 th passed from a recognized Board. 2. Minimum 12 weeks Basic Armourer course from Armed Forces/ Para-Military Force/ Police Note: Qualification are releaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age limit, educational qualification s prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/trans fer/absorption grades from which promotion /deputation /transfer/absorption to be made	If a Departmental promotion committee exists what is its compo For promotion from Group 'C' to Group 'B' DPC (for considering promotion/ confirmation)	Circumstance s in which UPSC to be consulted in making recruitment is consulted.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Two Years Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at	100% by Direct Recruitment	Not Applicable	Group 'C' DCC (for considering confirmation) : 1. Director General Home Guards - Chairperson 2. Additional/ Special Secretary (Home Department)-	Not Applicable.

	least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for completion of probation.			<p>Member</p> <p>3. Deputy Secretary (Home Department)- Member</p> <p>4. Deputy Secretary (Finance Department)- Member</p> <p>Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home)